

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 01-04-2021

सहारनपुर पुलिस द्वारा आगामी त्योहारों/त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2021 की तैयारियों एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ बनायें रखने हेतु 24

घंटो के अन्दर की गई कार्यवाही:-

- जनपद पुलिस द्वारा अन्तर्गत धारा 107/116 द0प्र0सं0 के तहत 31 वादो में कुल 930 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई हैं।
- शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत आपराधिक छवि के कुल 13 अभियुक्तो के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में चालानी रिपोर्ट प्रेषित की गई हैं।
- जनपद के विभिन्न थानो द्वारा आबकारी, आर्म्स एक्ट एवं चोरी में वांछित चल रहे कुल 15 अभियुक्तो को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया हैं।
- थाना रामपुर मनिहारान, थाना देवबंद, थाना जनकपुरी, थाना कुतुबशेर एवं थाना नकुड़ पुलिस द्वारा अवैध शराब व अवैध शस्त्र सहित कुल 09 अभियुक्तो को गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा गया।
- आगामी त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन-2021 की प्रक्रिया को शान्तिपूर्वक सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत एवं कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ बनाये रखने हेतु 24 घंटों में कुल 63 लाईसेन्सी शस्त्र जमा कराये गये।
- त्योहारों एवं आगामी त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन-2021 की प्रक्रिया को शान्तिपूर्वक सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत तथा संवेदनशीलता को कम करने हेतु जनपद के समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में निरंतर भ्रमणशील रहते हुए आम जनमानस को शांतिपूर्वक त्यौहार को मनाने के साथ-साथ कोविड-19 प्रोटोकाल के नियमों का पालन करने हेतु अपील की गई । इसके अतिरिक्त जनपद के राजपत्रित अधिकारी अपराध की रोकथाम एवं कानून-व्यवस्था के मद्देनजर क्षेत्रों में निरंतर भ्रमणशील रहकर स्थितियों का जायजा लिया जा रहा है।

प्रेस नोट दिनांक 01-04-2021

थाना देवबन्द पुलिस द्वारा अवैध शराब सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार :-

दिनांक 31-03-2021 को थाना देवबन्द पुलिस द्वारा खजूरी चौराहा से अभि० साकिब उर्फ हमरू पुत्र नसीम निवासी मौहल्ला किला थाना देवबन्द, सहारनपुर को 10 लीटर शराब खाम सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना देवबन्द पर मु०अ०सं० 203/21 धारा 60(1) आबकारी अधि० पंजीकृत किया गया।

थाना नकुड पुलिस द्वारा अवैध तमंचा/कारतूस व चाकू सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार :-

दिनांक 31-03-2021 को थाना नकुड पुलिस द्वारा गैस्ट हाउस से आगे सहारनपुर रोड सडक पुख्ता कस्बा नकुड से अभि० 1-अंकित कुमार पुत्र विक्रम निवासी सिरसका थाना नकुड, सहारनपुर व 2-प्रदीप पुत्र बलवन्त निवासी बाबूपुर नगली थाना देवबन्द, सहारनपुर को 01 तमंचा मय 02 जिन्दा कार० .315 बोर व 01 नाजायज चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना नकुड पर मु०अ०सं० 133/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व मु०अ०सं० 134/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

थाना नकुड पुलिस द्वारा अवैध शराब सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार :-

दिनांक 31-03-2021 को थाना नकुड पुलिस द्वारा हसनपुर मोड के पास से अभि० फरमान पुत्र जब्बार निवासी ग्राम रसूलपुर थाना नकुड, सहारनपुर को 12 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना नकुड पर मु०अ०सं० 135/21 धारा 63 आबकारी अधि० पंजीकृत किया गया।

थाना रामपुर पुलिस द्वारा अवैध शराब सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार :-

दिनांक 31-03-2021 को थाना रामपुर पुलिस द्वारा बुडढा खेडा गुर्जर से अभि० मोनू पुत्र ओमपाल निवासी बुडढा खेडा गुर्जर थाना रामपुर, सहारनपुर को 05 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना रामपुर पर मु०अ०सं० 94/21 धारा 60/63 आबकारी अधि० पंजीकृत किया गया।

थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा अवैध चरस सहित 03 अभियुक्त गिरफ्तार :-

दिनांक 31-03-2021 को थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा राधा कृष्ण कालोनी से अभि० 1-नितिन गुप्ता पुत्र महेश चन्द्र गुप्ता निवासी 50/7 लेवर कालोनी, 2-अनुराग उर्फ छेदी पुत्र विश्वजीत सिंह निवासी 03-07 लेवर कालोनी व 3-मनीष पुत्र विजय बहादुर निवासी 03-08 लेवर कालोनी थाना कुतुबशेर, सहारनपुर को क्रमशः 110 ग्राम, 120 ग्राम व 117 ग्राम नाजायज चरस सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना कुतुबशेर पर मु०अ०सं० 109,110,111/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा नाजायज चाकू सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार :-

दिनांक 31-03-2021 को थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा तिकोनी कोठी के पास से अभि० गौतम पुत्र स्व० रोशनपाल निवासी जिला अस्पताल थाना जनकपुरी, सहारनपुर को 01 नाजायज चाकू सहित गिरफ्तार किया गया।

मीडिया/सोशल मीडिया सेल
सहारनपुर।